

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023के अनुसार , निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान सार्वजनिक संस्थानों में भारत में पहले स्थान पर हैं?

- A) IIM अहमदाबाद
- B) IIM कलकत्ता
- C) IIM इंदौर
- D) IIM कोझीकोड

सही उत्तर: A

इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023 जारी किया। इस साल IIM लखनऊ ने एक पायदान की छलांग लगाते हुए चौथी रैंक हासिल की है। IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान हासिल किया है, इसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

प्रश्न-2

विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था?

- A) 04 फरवरी
- B) 03 फरवरी
- C) 02 फरवरी
- D) 01 फरवरी

सही उत्तर: C

विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिह्नित करता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से कौन भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति में शामिल हो गया है?

- A) विनेश फोगाट
- B) साक्षी मलिक
- C) बबीता फोगाट
- D) बबीता कुमारी

सही उत्तर: C

पूर्व पहलवान बबीता फोगाट भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित ओवरसाइट कमेटी पैनल में शामिल हो गई हैं। उन्हें WFI के दैनिक प्रशासन के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के पैनल में शामिल किया गया है।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसेFIH के प्रेसीडेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है?

- A) प्रसाद के. पनिकर
- B) आर.के. गुप्ता
- C) राजेश वर्मा
- D) वी.के. पांडियन

सही उत्तर: D

FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर-राउरकेला फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में FIH अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव वी.के. पांडियन को FIH प्रेसीडेंट पुरस्कार प्रदान किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) वी. रामचंद्र
- B) गिरीश चंद्र
- C) फारुख एन. सूबेदार
- D) डी. गणेश प्रकाश

सही उत्तर: A

रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक वी. रामचंद्र को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है।

प्रश्न-6

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने _____ के मालिबानबिस्कुट निर्माता के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

- A) बांग्लादेश
- B) चीन
- C) मॉरिशस
- D) श्रीलंका

सही उत्तर: D

रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने श्रीलंका के मालिबानबिस्कुट निर्माता के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ, रिलायंस और मालिबानअद्वितीय मूल्य प्रस्ताव विकसित करेंगे जिसका उपयोग RPCL बिस्कुट सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए करेगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा?

- A) अनंतपुरम
- B) गुंटूर
- C) विजयवाड़ा
- D) विशाखापत्तनम

सही उत्तर: D

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कृष्णा नदी के तट पर अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना के अंत का संकेत देते हुए कहा कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रास्फीति 48 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है?

- A) बांग्लादेश
- B) भारत
- C) नेपाल
- D) पाकिस्तान

सही उत्तर: D

देश के सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार , संकटग्रस्त पाकिस्तान में मुद्रास्फीति बढ़कर 48 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी 2023 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 27.55 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मई 1975 के बाद से सबसे अधिक है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस राज्य में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक आयोजित की गई थी?

- A) असम
- B) मेघालय
- C) नागालैंड
- D) तमिलनाडु

सही उत्तर: A

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी, असम में "वसुधैव कुटुम्बकम्" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" की थीम पर आधारित भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक का उद्घाटन किया।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है?

- A) संयुक्त-L1
- B) रक्षक-L1
- C) सूर्या-L1
- D) आदित्य-L1

सही उत्तर: D

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इस साल जून या जुलाई तक आदित्य- L1 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आदित्य- L1 सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है।